

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2022

जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना कपिलवस्तु पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर सुनी गयी जनता की फरियाद-

जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर श्री संजीव रंजन व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ० यशवीर सिंह द्वारा थाना कपिलवस्तु पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों को गम्भीरता से लेकर शत-प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया कि थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए जिन प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर सम्बंधित अधिकारी को प्रेषित करें जिससे समय से उचित निस्तारण कराया जा सके। मौके पर उप जिलाधिकारी श्री जगप्रवेश, प्रभारी निरीक्षक कपिलवस्तु व अन्य अधिकारी/कर्मगण मौजूद रहें।

प्रेस नोट-थाना पथरा बाजार दिनांक 28.05.2022

महिला सशक्तिकरण के क्रम में महिला बीट पुलिस अधिकारी व महिला हेल्प डेस्क अधिकारी द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान

डॉ० यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री अजय कुमार श्री वास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरिया गंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28.05.2022 को श्री राजेश कुमार मौर्य थानाध्यक्ष थाना पथरा बाजार सिद्धार्थनगर के निर्देशन में महिला बीट पुलिस अधिकारी, महिला आरक्षी ओमलता शुक्ला व महिला आरक्षी ममता मिश्रा द्वारा महिलाओं, बच्चों के साथ महिला सम्बन्धी अपराध, महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में ग्राम बसडिला मोदी नान कार में जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया तथा महिलाओं व बच्चियों को महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड लाइन के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

प्रेस नोट-थाना भवानीगंज दिनांक 28.05.2022

महिला सशक्तिकरण के क्रम में महिला बीट पुलिस अधिकारी द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान

डॉ० यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के अनुपालन में व श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व के दिशा-निर्देश श्री अजय कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28.05.2022 को श्री महेश सिंह, थानाध्यक्ष थाना भवानीगंज के कुशल नेतृत्व में महिला बीट पुलिस अधिकारी, महिला का. प्रेमशीला सरोज व रेखा यादव द्वारा महिलाओं, बच्चों के साथ महिला सम्बन्धी अपराध, महिला सुरक्षा के संबंध में ग्राम रठैना में जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया तथा महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मा.मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस आपात हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड लाइन के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए जागरूक किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2022 थाना कठेला समय माता

थाना समाधान दिवस पर उच्च स्तर पर प्राप्त पूर्व से चिन्हित प्रकरण का निस्तारण किया गया।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डा० यशवीर सिंह के आदेश के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत क्षेत्राधिकारी शोहरगढ़ श्री हरिश्चंद्र के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28.05.2022 को समाधान दिवस पर प्रभारी निरीक्षक कठेला समय माता श्री सौदागर राय के नेतृत्व में पूर्व से लम्बित चल रहे के भिन्न-भिन्न प्रकरण के प्रा० पत्र व अन्य भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रा० पत्र की जांच किया गया व 04 मामलो का सफल निस्तारण किया गया। समाधान दिवस पर हल्का के रा० लेखपाल व बीट पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहें।

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2022 थाना गोलहौरा

थाना गोलहौरा पर समाधान दिवस का आयोजन कर 03 मामलों का सफल निस्तारण किया गया ।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डा0 यशवीर सिंह के आदेश के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत क्षेत्राधिकारी श्री रमेश चंद्र पांडेय के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28.05.2022 को समाधान दिवस पर उपजिलाधिकारी बांसी श्री प्रमोद कुमार व प्रभारी निरीक्षक गोलहौरा श्री छत्रपाल सिंह के नेतृत्व में पूर्व से लम्बित चल रहे के भिन्न-भिन्न प्रकरण के प्रा0 पत्र व अन्य भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रा0 पत्र की जांच किया गया व 03 मामलो का सफल निस्तारण किया गया । समाधान दिवस पर हल्का के रा0 लेखपाल व बीट पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहें ।

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2022 थाना भवानीगंज

थाना भवानीगंज पर किया गया समाधान दिवस का आयोजन, कुल प्राप्त 13 आवेदनों में 12 का सफल निस्तारण किया गया ।

डॉ. यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर के आदेश श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में तहसीलदार डुमरियागंज श्री राजेश प्रताप सिंह, की अध्यक्षता व श्री महेश सिंह, थानाध्यक्ष भवानीगंज, सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 28.05.2022 को थाना परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया । समाधान दिवस पर कुल 13 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमे से 12 आवेदन-पत्रों का सफल निस्तारण किया गया । पूर्व के शेष लंबित 06 प्रार्थना-पत्रों अर्थात कुल 18 प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2022 थाना मोहाना

थाना मोहाना समाधान दिवस पर उच्च स्तर पर प्राप्त पूर्व से चिन्हित प्रकरण का किया गया निस्तारण ।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डा0 यशवीर सिंह के आदेश के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत, क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रदीप कुमार यादव के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28.05.2022 को समाधान दिवस पर प्रभारी निरीक्षक मोहाना श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में पूर्व से लम्बित चल रहे भिन्न-भिन्न प्रकरण के प्रा0 पत्र व अन्य भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रा0 पत्र की जांच किया गया व मामलो का सफल निस्तारण किया गया । थाना समाधान दिवस पर कुल 07 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमे से 01 प्रार्थना-पत्र का त्वरित निस्तारण किया गया । शेष प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व लेखपाल को दिया गया तथा igrs में प्राप्त असंतुष्ट फीडबैक से संबंधित 17 igrs प्रार्थना-पत्रों में से 09 प्रार्थना-पत्रों के आवेदक व विपक्षी को थाना समाधान दिवस पर बुलाकर निस्तारित किया गया । इसके अतिरिक्त पूर्व के राजस्व विभाग में लंबित 04 प्रार्थना-पत्रों को भी निस्तारित किया गया । मौके पर हल्का के राजस्व लेखपाल व बीट पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहें ।

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2022 थाना मोहाना

थाना समाधान दिवस पर 08 वर्षों से चल रहे जमीनी विवाद का सफल निस्तारण किया गया ।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डा0 यशवीर सिंह के आदेश के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत, क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रदीप कुमार यादव के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28.05.2022 को समाधान दिवस पर प्रभारी निरीक्षक मोहाना श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में सन 2014 से चल रहे जमीन संबंधी विवाद जो बृजेश पुत्र झीनक व जगदीशवर पुत्र बदल प्रसाद निवासी पनेरा जाफर जोत थाना मोहाना दोनो लोगो के बीच में काफी समय से चल रहा था राजस्व व पुलिस के सहयोग से मामले का सफल निस्तारण कराया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2022 थाना खेसरहा

ASP सिद्धार्थनगर द्वारा थाना खेसरहा पर आयोजित समाधान दिवस में उपस्थित होकर जन सुनवाई की गई।

आज दिनांक 28-05-2022 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना खेसरहा में उपस्थित होकर जन सुनवाई की गई। आयोजित समाधान दिवस में कुल 18 प्रकरण थाने पर प्राप्त हुए। जिसमें राजस्व विभाग और पुलिस के संयुक्त सहयोग से दोनों पक्षों से वार्ता करके कुल 11 प्रकरणों का त्वरित निराकरण कराया गया। शेष प्रकरणों के निराकरण हेतु टीमों मौके पर भेजी गई। इसके पश्चात थाने पर तैनात उपनिरीक्षकगण की विवेचनाओं की समीक्षा की गई। लंबित प्रकरणों को 01 सप्ताह में निस्तारण के निर्देश दिए गए। थाना पर निर्माणाधीन विवेचना कक्ष तथा पुलिस हॉस्टल का निर्माण कार्य 30 जून तक पूरा करवाने के निर्देश दिए गए।

सुरेश चंद्र रावत

अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 28/05/2022 थाना ढेबरुआ

डॉ यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री हरिशंकर क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में तथा तहसीलदार श्री धर्मवीर भारती एवं थानाध्यक्ष श्री जीवन त्रिपाठी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 28/05/2022 को थाना ढेबरुआ पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें आवेदकों की समस्याएं जैसे भूमि विवाद आदि प्रकरणों की सुनवाई तथा मौके पर निस्तारण किया गया जिसमें बीस साल पुराना भूमि विवाद को कुशलता पूर्वक मौके पर ही निस्तारित किया गया। आईजीआरएस प्रकरणों में जो आवेदक बाद जांच असंतुष्ट थे उनकी सुनवाई कर मौके पर ही समाधान किया गया

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2022 थाना को. लोटन

थाना समाधान दिवस पर थाना को. लोटन उच्च स्तर पर प्राप्त पूर्व से चिन्हित प्रकरण का निस्तारण किया गया।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डा0 यशवीर सिंह के आदेश के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत क्षेत्राधिकारी महोदय सदर श्री प्रदीप कुमार यादव के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28.05.2022 को समाधान दिवस पर प्रभारी निरीक्षक को.लोटन श्री देवनन्दन उपाध्याय के नेतृत्व में पूर्व से लम्बित चल रहे भिन्न-भिन्न प्रकरण के प्रा0 पत्र व अन्य भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रा0 पत्र की जांच की गयी। समाधान दिवस पर हल्का के रा0 लेखपाल व बीट पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहें। कुल प्राप्त प्रार्थना पत्र-राजस्व से 07

निस्तारित -03

शेष - 04

प्रेस नोट- दिनांक 28.05.2022 डुमरियागंज

थाना समाधान दिवस पर थाना डुमरियागंज में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम के द्वार उच्च स्तर पर प्राप्त पूर्व से चिन्हित प्रकरण का निस्तारण किया गया।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डा0 श्री यशवीर सिंह के आदेश के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण में उप जिलाधिकारी डुमरियागंज श्री प्रदीप कुमार एवं क्षेत्राधिकारी महोदय डुमरियागंज श्री अजय कुमार श्रीवास्तव व प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज श्री सूर्यभान सिंह की उपस्थिति में थाना डुमरियागंज में आज दिनांक 28.05.2022 को समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व से लम्बित चल रहे राजस्व के भिन्न-भिन्न प्रकरण के प्रार्थना पत्र एवं भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र की जांच की गयी एवं सफलतापूर्वक निस्तारण कराया गया। समाधान दिवस पर हल्का के राजस्व लेखपाल व बीट पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहें।

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2022 थाना कोतवाली कपिलवस्तु

विगत 06 माह से वांछित/वारंटी अभियुक्त को कपिलवस्तु पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया ।

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में थाना मोहाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 271/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष कपिलवस्तु द्वारा की जा रही थी से सम्बंधित 06 माह से वांछित/वारंटी अभियुक्त को आज दिनांक 28.05.2022 को सूर्यप्रकाश सिंह थानाध्यक्ष थाना कपिलवस्तु द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया व अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- जावेद उर्फ नेपाली पुत्र निजामुद्दीन साकिन बर्डपुर नं0 06 टोला नोनहवा थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. SO सूर्य प्रकाश सिंह
 2. का0 अरविंद यादव
 3. का0 राकेश कुमार
- थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक-28.05.2022 थाना शोहरतगढ़

थाना समाधान दिवस पर थाना शोहरतगढ़ में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम के द्वार उच्च स्तर पर प्राप्त पूर्व से चिन्हित प्रकरण का निस्तारण किया गया ।

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री हरीशचन्द्र क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही- आज दिनांक 28.05.2022 को श्रीमान एसडीएम महोदय तहसील शोहरतगढ़, श्री हरीशचन्द्र क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ व श्री जयप्रकाश दूबे, थानाध्यक्ष शोहरतगढ़ व समस्त अधि./कर्म.गण व समस्त राजस्व टीम हल्का लेखपाल की उपस्थिति में थाना शोहरतगढ़ पर थाना समाधान दिवस पर सम्पत्ति/भूमि/रास्ता/नाली आदि सम्बन्धी विवाद से आनलाईन आईजीआरएस से प्राप्त प्रार्थना पत्र से 09 आवेदक असंतुष्ट थे जिसमें से थाना समाधान दिवस पर असंतुष्ट आवेदकगण फूलमती पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट हैं व आवेदिका सबरुन्निशा के प्रा0पत्र के सम्बन्ध में हल्का लेखपाल द्वारा बताया गया कि विपक्षी की जमीन पर कब्जा करने के लिए आवेदिका द्वारा बार-बार प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है व आवेदक रामकरन के प्रा0पत्र के सम्बन्ध में श्रीमान एसडीएम महोदय व लेखपाल द्वारा बताया गया कि आवेदक उक्त का प्रकरण दीवानी का मामला है दिया गया प्रार्थना पत्र निराधार है । आज समाधान दिवस में प्राप्त कुल 07 प्रार्थना पत्र में से 02 प्रार्थना पत्र का मौके पर निस्तारण व पूर्व के लम्बित प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित आवेदकगण को बुलाकर 04 का निस्तारण व कुल 06 प्रार्थना पत्र का निस्तारण कराया गया ।

प्रेस नोट दिनांक:- 28.05.2022 थाना मिश्रौलिया

थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर से 01 नफर अभियुक्त को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया ।

डॉ यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री रमेश चंद्र पांडे क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष मिश्रौलिया श्री घनश्याम सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 28.05.22 को मु0अ0सं0-92/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत अन्तर्गत 01अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रामचरित्र पुत्र स्वर्गीय जगमोहन निषाद ग्राम चेतिया टोला मदरहिया थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

ब्रामदगी का विवरण: 45 अदद बंटी बबली लाईम देसी शराब मसाला अभियुक्त के कब्जे से ब्रामद किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. उ०नि० श्री दुर्गा प्रसाद

02. का० आलोक यादव

03. का० गिरिजेश कुमार

थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट थाना शिवनगर डीडई दिनांक 28.05.2022

थाना शिवनगर डीडई पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया ।

डॉ यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में श्री अभिमन्यु सिंह थानाध्यक्ष थाना शिवनगर डीडई, सिद्धार्थनगर व थाना स्थानीय पर पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी गण की उपस्थिति में आज दिनांक 28.05.2022 को चतुर्थ शनिवार को थाना स्थानीय पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें महोदय द्वारा आम जनमानस की समस्याओं को सुना गया जिनके निस्तारण हेतु पुलिस विभाग व राजस्व विभाग के अधिकार व कर्मगण को निर्देशित किया गया । थाना समाधान दिवस में कुल 04 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ । सभी राजस्व विभाग से संबंधित होने के कारण निस्तारण हेतु दिया गया ।

प्रेस नोट- दिनांक 28.05.2022 थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

थाना समाधान दिवस पर थाना मिश्रौलिया में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम के द्वारा उच्च स्तर पर प्राप्त पूर्व से चिन्हित प्रकरण का निस्तारण किया गया ।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डा० श्री यशवीर सिंह के आदेश के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी महोदय इटावा श्री रमेश चंद्र पांडे व थानाध्यक्ष मिश्रौलिया घनश्याम सिंह की उपस्थिति में थाना मिश्रौलिया में आज दिनांक 28.05.2022 को समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व से लम्बित चल रहे राजस्व के भिन्न-भिन्न प्रकरण के प्रार्थना पत्र एवं भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र की जांच की गयी एवं सफलतापूर्वक निस्तारण कराया गया। समाधान दिवस पर हल्का के राजस्व लेखपाल व बीट पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहें ।

प्रेस नोट-थाना मिश्रौलिया दिनांक 28.05.2022

महिला सशक्तिकरण के क्रम में महिला बीट पुलिस अधिकारी व महिला हेल्प डेस्क अधिकारी द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान

डॉ० यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री रमेश चंद्र पाण्डेय क्षेत्राधिकारी इटावा के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28.05.2022 को श्री घनश्याम सिंह थानाध्यक्ष थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन में बीट उपनिरीक्षक वीरेंद्र मल्ल हेड कांस्टेबल श्रीकांत यादव कांस्टेबल सतवंत पासवान महिला बीट पुलिस अधिकारी, महिला आरक्षी ज्योति गुप्ता महिलाओं, बच्चों के साथ महिला सम्बन्धी अपराध, महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में मिश्रौलिया खालसा का केवतहिया टोला में मिशन शक्ति का अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया तथा महिलाओं व बच्चियों को महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड लाइन के सम्बन्ध में जानकारी दी गई ।

प्रेस नोट दिनांक 28.05.2022 महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई- किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया |

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 28-05-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 01 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई। परामर्शन के बाद पत्रावली का सफल निस्तारण संभव हुआ। 01 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान, म०हे०का० सविता सिंह व महिला आरक्षी नेहा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

निस्तारित पत्रावली का विवरण :-

1. संगीता पत्नी छोटई साकिन बसौना थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट:दिनांक 28.05.2022 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान, पी0ए0सिस्टम व पम्पलेट के माध्यम से यातायात जागरूकता से संबन्धित प्रचार प्रसार किया गया।

आज दिनांक 28.05.2022 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 यशवीर सिंह के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री अखिलेश वर्मा के कुशल निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत पी0ए0सिस्टम व पम्पलेट के माध्यम से सनई तिराहा, साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा व पावर हाउस तिराहा आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से संबन्धित प्रचार प्रसार किया गया तथा प्रभारी यातायात श्री अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम द्वारा 132 वाहनों को चेक किया गया, वाहन चैकिंग के दौरान यातायात नियमों का पालन न करने वाले 27 वाहनों से 28200-रु० शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली संख्या में भारी कमी लायी जा सके।

